

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक -10 -03 - 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों विशेषण के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे ।

### क्रिया - विशेषण किसे कहते हैं

जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं ,उन्हें क्रिया - विशेषण कहते हैं |जैसे -

1. रमेश प्रतिदिन लिखता है
2. घोड़ा तेज दौड़ता है
3. राम धीरे-धीरे टहलता है
4. सुमन संदुर लिखती है

इन वाक्यों में प्रतिदिन,संदुर लिखने की विशेषता और तेज दौड़ना और धीरे-धीरे टहलने की विशेषता प्रकट करता है ,इसलिए इन शब्द को क्रिया - विशेषण कहते हैं

### क्रिया विशेषण के मुख्य चार प्रकार हैं

1. कालवाचक
2. स्थानवाचक
3. परिणाम वाचक
4. रीतिवाचक

**1. कालवाचक क्रियाविशेषण** - जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के बारे में बताएं ,उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं |जैसे -

1. सीता कल जाएगी
2. वह प्रतिदिन पढ़ता है
3. दिन भर वर्षा होती है

इन वाक्यों में कल,प्रतिदिन,और दिनभर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं |इनके अलावा आज,तुरंत,अभी,हरबार आदि भी कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं

**2. स्थानवाचक क्रियाविशेषण** - जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का पता कराते हैं ,उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं |जैसे -

1. सुनील नीचे बैठा है
2. इधर-उधर मत देखो

3. वह आगे चला गया

इन वाक्यों में नीचे,इधर-उधर,आगे आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं |इसके अलावा यहाँ,वहाँ,दाएं ,बाएँ सामने ,बाहर,भीतर आदि भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं

**3. परिणाम वाचक क्रियाविशेषण** - जो शब्द क्रिया के परिमाण या नाप - तोल के बारे में बताते हैं ,उन्हें परिणाम वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं |जैसे -

1. उतना बोलो,जितना जरूरी हो

2. रमेश खूब पढ़ता है

3. तेज गाड़ी चल रही है

4. सविता बहुत बोलती है

इन वाक्यों में उतना,जितना ,खूब ,तेज ,बहुत आदि परिणाम वाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं |इसके अलावा अति, खूब, थोड़ा, कुछ,काफी ,उतना ,कम आदि भी परिणाम वाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं